

आदरणीय बंधुओं !

जैसा की आप जानते हैं कि 'बेस्टी एजुकेशन साहित्यिक संस्थान' रजिस्टर्ड न होते हुए भी हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में अपना भरसक योगदान देता रहा है। इस बार संस्था की ओर से कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए काव्यपाठ प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उसके नियम तथा स्वरूप इस प्रकार है-----

प्रतिभागी कविता पाठ करते हुए वीडियो बनाकर भेजेंगे।

कविता शुद्ध और प्रामाणिक होनी चाहिए। अलग-अलग मुक्तकों की बजाय एक ही भाव की कविता या प्रसंग होना चाहिए।

कविता ओज, शृंगार, प्रबोधन, व्यंग्य, करुणा, मानवीय सरोकार - किसी भी पक्ष से संबंधित हो सकती है।

आकलन का आधार आत्मविश्वास, पूर्ण स्मरण, शुद्ध उच्चारण, हाव-भाव और प्रभावी प्रस्तुति होगा।

रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि-31 मार्च 2021 (रजिस्ट्रेशन हेतु [www.bestieeducation.com/](http://www.bestieeducation.com/) पर जाएँ)

एक प्रतियोगी केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है।

रजिस्ट्रेशन पूर्ण होते ही आपको एक WhatsApp लिंक मिलेगा। लिंक पर जाकर आप संस्था के WhatsApp ग्रुप से अवश्य जुड़ें वरना आप आगे की जानकारी व ई-सर्टिफिकेट आदि प्राप्त नहीं कर सकेंगे।

प्रतियोगी प्रविष्टि में अपने प्रान्त का नाम, अपना नाम, माता/पिता का नाम, जन्म-तिथि, कक्षा, पता, व्हाट्सएप वाला मोबाइल नम्बर, अपना ईमेल आदि विस्तार से भरें। (गलत व अधूरी जानकारी देने वाले प्रतिभागी को प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी।)

हम यह मानकर चल रहे हैं कि प्रतिभागी का परिचय प्रामाणिक है तथा बोली गई कविता उसे पूरी तरह स्मरण है। गलत होने पर उसे प्रतियोगिता से बाहर कर दिया जाएगा।

वीडियो में प्रतियोगी खड़ा होकर ही कविता पाठ करेंगे। वीडियो बनाते समय इतना अवश्य ध्यान रहे कि फ़ोटो (आपके वीडियो) की ऊपरी हिस्सा स्पष्ट रूप से दिखाई दे ताकि निर्णायकों को उसकी भावमुद्राएँ स्पष्ट दीख सकें। कविता पाठ का समय कविता के पहले शब्द से लेकर कविता के अंतिम शब्द तक गिना जाएगा ।

समय-सीमा – कम से कम 3 मिनट और ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट। (कम या अधिक बोलने वाले वाचकों के अंक काटे जाएँगे।)

भूमिका का समय कविता में नहीं गिना जाएगा ।

कवितापाठ से पहले यह वाक्य कहना होगा -- (उदाहरण) मैं रागिनी शर्मा, अहमदाबाद, गुजरात से 'बेस्टी एजुकेशन साहित्यिक संस्थान मंच' पर कवि .....माखनलाल चतुर्वेदी जी..... की कविता का पाठ करने जा रही हूँ। जिसके बोल हैं – हम पंछी उन्मुक्त गगन के, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं.....आदि।

या

मैं विजय पाण्डेय, लखनऊ, उत्तर प्रदेश से 'बेस्टी एजुकेशन साहित्यिक संस्थान मंच' पर कवि .....सोहनलाल द्विवेदी जी की कविता का पाठ करने जा रहा हूँ। जिसके बोल हैं – हम पंछी उन्मुक्त गगन के, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं.....आदि।

कागज़ देखकर पढ़ने वाले को प्रतियोगिता में स्थान नहीं मिलेगा।

देशभर के प्रतियोगी अपनी-अपनी कविता का वीडियो बनाकर WhatsApp (+91 ..... ) पर भेजेंगे।

25 अप्रैल, 2021 को तीन सर्वश्रेष्ठ कवितावाचक के नाम घोषित होंगे।

15 अप्रैल के बाद आप अपना वीडियो संस्था के YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं।

सभी प्रतिभागियों को संस्था की ओर ई-सर्टिफिकेट दिया जाएगा।

प्रथम तीन प्रतिभागी को संस्था की ओर से पुरस्कार देकर हौसला अफ़ाजाई भी किया जाएगा।

पुरस्कार राशि- प्रथम- ₹1101/- मात्र ।

द्वितीय ₹701/- मात्र। तथा

तृतीय ₹501/- मात्र की राशि प्रदान की जाएगी।

(धन राशि – google pay, पेटीयम, बैंक अकाउंट आदि माध्यम से भेजा जाएगा।)

निर्णायकों का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य होगा जिसे चुनौती नहीं दी जा सकेगी।

प्रतियोगिता में कविता को याद करके बोलना अनिवार्य है। हमारे निर्णायक यह सुनिश्चित करेंगे कि कविता निश्चित समय में तथा स्मरण करके ही बोली गई है।

प्रतियोगी अपनी कविता का वीडियो बनाकर और अपना परिचय लिखकर तैयार रखेंगे। वीडियो और परिचय अपलोड करने की तिथि 2 अप्रैल रहेगी। (2 अप्रैल से पहले या बाद में भेजे गए वीडियो पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।)

प्रतियोगिता के परिणाम से पहले प्रतियोगी की कविता अन्य किसी मंच या मीडिया पर प्रस्तुत नहीं होनी चाहिए, वरना उसे प्रतियोगिता से बाहर समझा जाएगा। अपनी प्रस्तुति की गोपनीयता बनाने का दायित्व प्रतियोगी का होगा। यह भी ध्यान रखें कि गलती से आप उसे और किसी पटल पर न डाल दें। यह जिम्मेदारी भी आपकी होगी।

आवश्यकता पड़ने पर किसी भी प्रकार के फेर बदल करने का पूर्ण अधिकार संस्था को है।

जिसकी जानकारी WhatsApp group या [www.bestieeducation.com/](http://www.bestieeducation.com/) पर दी जायेगी।

रजिस्ट्रेशन हेतु लिंक -<https://forms.gle/faLaJr8grCWCaw4t9>

(रजिस्ट्रेशन के लिए अंतिम तिथि – 31 मार्च 2021)

WhatsApp लिंक- <https://chat.whatsapp.com/GUrYcXSFe8C5dyNH4MCv6j>

(JOIN THIS GROUP)